

## नियम व शर्तें

1. सभी फॉर्म ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भरे जायेंगे
2. शुल्क 599/- प्रति परीक्षार्थी रहेगा जो की ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते समय संस्था के खाते में जमा होगा
3. चुना विद्यार्थी यदि भविष्य में किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वह इस स्कॉलरशिप का पात्र नहीं रहेगा ।
4. परीक्षा का स्तर प्रदेश वार रहेगा, किसी जिले से कम विद्यार्थी होने की स्थिति में उसे दुसरे जिले में परीक्षा देने आना होगा ।
5. कम विद्यार्थी होने पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जायेगा उन्हें दुसरे केंद्र में जा कर परीक्षा देनी होगी
6. प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा का डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा
7. कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थी सम्मिलित किये जायेंगे ।
8. 12 वी तक की स्कालरशिप से आशय यह है की जिस क्षेत्र में विद्यार्थी अध्यनरत है वहा के विद्यालयों का शुल्क का अवलोकन कर एवं उनके शुल्क का औसत शुल्क प्रदान किया जायेगा ।
9. स्कालरशिप –सिर्फ शिक्षा शुल्क की होगी । विद्यालय का अन्य शुल्क जैसे – गतिविधि शुल्क, कीड़ा शुल्क, स्काउट, गाइड, साइंस लैब अवम अन्य गतिविधि शुल्क इस स्कालरशिप राशी में शामिल नहीं रहेगा ।
10. यदि कक्षा 12 वी के विद्यार्थी मेरिट में रहते है तो या स्कालरशिप में चयनित होते है उस स्थिति में उन्हें भी क्षेत्र के विद्यालयों का शुल्क का अवलोकन कर एवं उनके शुल्क का औसत शुल्क प्रदान किया जायेगा ।
11. स्कालरशिप की राशी अधिकतम 1 लाख रूपए तक की होगी । जिसे कक्षा के अनुसार विभाजित कर उस राशी के चेक चयनित विद्यार्थी को प्रदान किये जायेंगे ।
12. शिक्षा सत्र 18-19 में जो सभी विद्यालयों का शिक्षा शुल्क होगा । उसी के आधार पर कक्षा 12 तक की स्कालरशिप का भुगतान किया जायेगा । अतार्थ यदि चयनित छात्र 2020 में या अन्य किसी वर्ष में कक्षा में पहुचता है उस सत्र का शुल्क जो भी हो, उस से संस्था को कोई लेना देना नहीं रहेगा, संस्था सत्र 18-19 के शिक्षण शुल्क के हिसाब से स्कॉलरशिप देगी ।
13. चयनित विद्यार्थी को प्रतिवर्ष अपने उत्तीर्ण होने के प्रमाण संस्था को प्रस्तुत करना होंगे तभी वह अगले वर्षों की स्कालरशिप राशी प्राप्त कर पायेगा ।
14. परीक्षा से सम्बंधित समय सारणी, परीक्षा केंद्र में बदलाव किये जा सकते है जिसका अधिकार संस्था के पास सुरक्षित है ।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था का निर्णय सुरक्षित रखा जायेगा (संस्था का निर्णय सर्वमान्य रहेगा )
16. परीक्षार्थियों द्वारा भरे गए फार्म को चयन होने के पश्चात् सत्यापित करना होगा । एव दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । एसा ना होने की स्थिति में चयनित परीक्षार्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा ।
17. फॉर्म भरने के पश्चात् शुल्क किसी भी कारण वापस नहीं दिया जायेगा ।
18. परीक्षा केंद्र तक जाने आने या किसी अन्य शहर में जाने आने हेतु किसी तरह का कोई शुल्क संस्था नहीं देगी । विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र आने जाने एवं अन्य खर्चे स्वयं को उठाना होगा ।